



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1410]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 2006/अग्रहायण 3, 1928

No. 1410]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2006/AGRAHAYANA 3, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND
HIGHWAYS

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

(Department of Road Transport and Highways)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2006

New Delhi, the 24th November, 2006

का.आ. 2013(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष जिला राजस्व अधिकारी (भूमि अर्जन), राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला कांचीपुरम और तिरुवल्लूर, तमिलनाडु को तल्लिमनाडु राज्य में नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के 27/8 कि.मी. से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 13/8 कि.मी. को जोड़ने वाले भूखंड पर चेन्नई बाईपास (प्रथम चरण) को चौड़ा करने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है :—

S.O. 2013(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorises the Special District Revenue Officer (LA), National Highways, Kancheepuram and Thiruvallur Districts, Tamil Nadu, as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land connecting National Highway No. 45 at Km. 27/8 and National Highway No. 4 at Km. 13/8 for widening of Chennai Bypass (Phase-I) in the State of Tamil Nadu, as specified in the Schedule given below :—

अनुसूची

SCHEDULE

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के 27/8 कि.मी. से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 13/8 कि.मी. को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास (प्रथम चरण) को चार लेन का बनाने की बाबत भूमि का अर्जन।

Acquisition of land for four-laning of Chennai Bypass (Phase-I), connecting National Highway No. 45 at Km. 27/8 and National Highway No. 4 at Km. 13/8.

क्रम सं.	जिला	तालुक	राज्य	गांव का नाम
1	कांचीपुरम	ताम्बरम	तमिलनाडु	(1) ताम्बरम (2) इरुम्बुलियूर

Sl. No.	District	Taluk	State	Name of Village
1	Kancheepuram	Tambaram	Tamil Nadu	(1) Tambaram (2) Irumbuliyur.

[फा. सं. भाराराप्रा/13012/4/98-पीआई/3(ए)/
सीबीपी-ताम्बरम/एलए/एसपी]
पी. एस. राना, उप-सचिव

[F. No. NHAI/13012/4/98-PI/3(A)/CBP-
TAMBARAM/LA/SP]
P. S. RANA, Dy. Secy.